



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025—माघ 25, शक 1946

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.-3-3-4-0014-2024-Sec-02-पांच (CT)(13).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ.), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मंदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

### संशोधन

उक्त नियमों में, —

(1) नियम 8 में, उप-नियम (1) में,—

(क) खण्ड (कक्ष-8) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(कक्ष-8) आर. डब्ल्यू. एस. 1 (खुदरा मंदिरा दुकान से हेरिटेज मंदिरा एवं मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन के विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति):-

खुदरा मंदिरा दुकान से सील बंद बोतलों में हेरिटेज मंदिरा एवं मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन, जो कि मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर तथा अन्य फलों से मध्यप्रदेश में विनिर्मित की गई हो, के विक्रय के लिए प्रस्तुप आर. डब्ल्यू. एस. 1 में अनुज्ञाप्ति, रूपये 10,000/- की वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस के अग्रिम भुगतान पर स्वीकृत की जाएगी।"

(ख) खण्ड (कक्ष-9) में, शब्द "वाईन", जहाँ कहीं भी वे आया हो, के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएः

(ग) खण्ड (कक्ष-10), (खख), (ख ख ख ख), (ग), (गग), (घ) एवं (ङ) में, शब्द "विदेशी मंदिरा" जहाँ कहीं भी वे आए हों, के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएँ।

(2) नियम 8-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"8-क. एफ.एल.एच.बी. (होमबार अनुशास्ति).- प्रस्तुप एफ.एल.एच.बी. में होम-बार अनुशास्ति ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत निवास पर विदेशी मंदिरा एवं हेरिटेज मंदिरा के उपभोग एवं कब्जे के लिए दी जाएगी, जिसकी गत वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी अनुसार प्रतिवेदित सकल व्यक्तिगत आय और न्यूनतम 35 लाख रुपए रही हो। यह अनुशास्ति कलक्टर द्वारा रुपए 75,000/- की वार्षिक अनुशास्ति फीस के संदाय पर दी जाएगी।"

(3) प्रस्तुप एफ.एल. 2 में,-

(क) प्रारंभिक पैरा में, नियमों के लघु शीर्षक को छोड़कर शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ख) शर्तों में,-

(एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द तथा चिन्ह "जिन्हें कि कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" के पश्चात्, शब्द, चिन्ह, कोष्ठक, अक्षर एवं अंक "अनुशास्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2)/आर.डब्ल्यू.एस.1/आर.डब्ल्यू.एस.2 से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(दो) शर्त क्रमांक (2), (3) एवं (4) में, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(तीन) शर्त क्रमांक (6-क) में, अंत में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "अनुशास्तिधारक, विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर, 180 मिलीलीटर/375 मिलीलीटर/500 मिलीलीटर/750 मिलीलीटर की क्षमता के साथ हेरिटेज मंदिरा का स्टॉक सील बंद बोतलों में कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(चार) शर्त क्रमांक (8-ख) के पश्चात्, परंतुक में खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(8-ग) बार का अनुशास्तिधारक, मैन्यू में, हेरिटेज मंदिरा का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।"

(4) प्रस्तुप एफ. एल. 3 में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, नियमों के शीर्षक को छोड़कर, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ख) शर्तों में,-

(एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द तथा चिन्ह "जैसा कि कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" के पश्चात्, शब्द, चिन्ह, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "अनुशप्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2)/आर.डब्ल्यू.एस.1/आर.डब्ल्यू.एस.2." से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(दो) शर्त क्रमांक (2) में, शब्द "विदेशी मंदिरा" जहाँ कहीं भी वे आए हों, के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(तीन) शर्त क्रमांक (3) में, शब्द "केवल फुटकर (लूज) विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं फुटकर (लूज) हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(चार) शर्त क्रमांक (4)(ख) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(ग) अनुशप्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा की न्यूनतम 2 पेटियाँ विक्रय हेतु अनिवार्य रूप से स्टॉक करेगा। रखे गए निर्धारित न्यूनतम स्टॉक की मात्रा की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाएगी। ऐसे समस्त दिवसों पर, जब हेरिटेज मंदिरा का स्टॉक उक्त निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम होना पाया जाए, कलक्टर ऐसी मात्रा पर, जो निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम है, रूपये 500/- प्रति प्रूफ लीटर प्रतिदिवस तक की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।";

(पांच) शर्त क्रमांक (5) एवं (8) में, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(छह) शर्त क्रमांक (6) में, अंत में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "अनुशप्तिधारक, विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर, 180 मिलीलीटर/375 मिलीलीटर/500 मिलीलीटर/750 मिलीलीटर की क्षमता के साथ हेरिटेज मंदिरा का स्टॉक सील बंद बोतलों में कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(सात) शर्त क्रमांक (8) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(8-क) बार का अनुशप्तिधारक, मैन्यू में, हेरिटेज मंदिरा का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।"

(5) प्ररूप एफ.एल.3-क में,-

(क) प्रारंभिक पैरा में, नियमों के लघु शीर्षक को छोड़कर शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ख) शर्तों में,-

- (एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द तथा चिन्ह "जैसा कि कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" के पश्चात्, शब्द, चिन्ह, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "अनुशासिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2)/आर.डब्ल्यू.एस.1/ आर.डब्ल्यू.एस.2 से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं;
- (दो) शर्त क्रमांक (2), में, शब्द "विदेशी मंदिरा" जहां कहीं भी वे आए हों, के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (तीन) शर्त क्रमांक (3) में, शब्द "केवल फुटकर (लूज) विदेशी मंदिरा", के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (चार) शर्त क्रमांक (4) एवं (8) में, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (पाँच) शर्त क्रमांक (6) में, अंत में, पूर्ण विराम के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह "अनुशासिधारक, विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर, 180 मिलीलीटर/375 मिलीलीटर/500 मिलीलीटर/750 मिलीलीटर की क्षमता के साथ हेरिटेज मंदिरा का स्टाक सील बंद बोतलों में कर सकेगा।" जोड़े जाएं;
- (छह) शर्त क्रमांक (8) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाए, अर्थात्:-  
 "(8-क) बार का अनुशासिधारक, मैन्यू में, हेरिटेज मंदिरा का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।"

(6) प्ररूप एफ.एल. 4 में,-

- (क) शीर्षक में, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (ख) प्रारंभिक पैराग्राफ में, नियमों के लघु शीर्षक को छोड़कर, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (ग) शर्तों में,-
- (एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द तथा चिन्ह "जैसा कि कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" के पश्चात्, शब्द, चिन्ह, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "अनुशासिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2)/आर.डब्ल्यू.एस.1/ आर.डब्ल्यू.एस.2 से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(दो) शर्त क्रमांक (2), (3), (6) एवं (8) में शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(तीन) शर्त क्रमांक (5) में, अंत में, शब्द, अंक तथा चिन्ह अनुज्ञाप्तिधारक, विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर, 180 मिलीलीटर/375 मिलीलीटर/ 500 मिलीलीटर/750 मिलीलीटर की क्षमता के साथ हेरिटेज मंदिरा का स्टाक सील बंद बोतलों में कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(चार) शर्त क्रमांक (9) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(9-क) बार का अनुज्ञाप्तिधारक, मैन्यू में, हेरिटेज मंदिरा का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।"

(7) प्ररूप एफ.एल. 5 में,-

(क) प्रारंभिक पैरा में, नियमों के लघु शीर्षक को छोड़कर, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ख) शर्तों में,-

(एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द "जैसा कि कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" के पश्चात् शब्द, चिन्ह, कोष्ठक अक्षर तथा अंक "अनुज्ञाप्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2)/आर.डब्ल्यू.एस.1/आर.डब्ल्यू.एस.2 से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाए;

(दो) शर्त क्रमांक (2), (3) एवं (7) में शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" जोड़े जाएं;

(तीन) शर्त क्रमांक (5) में शब्द, अंत में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "अनुज्ञाप्तिधारक, विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर, 180 मिलीलीटर/375 मिलीलीटर/500 मिलीलीटर/750 मिलीलीटर की क्षमता के साथ हेरिटेज मंदिरा का स्टाक सील बंद बोतलों में कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(8) प्ररूप आर.डब्ल्यू.एस.1 में,-

(क) अंग्रेजी संस्करण में शीर्षक में शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा चिन्ह "मध्यप्रदेश (एम.पी.) निर्मित वाईन" के स्थान पर, शब्द "हेरिटेज मंदिरा एवं मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन" स्थापित किए जाएं;

(ख) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द "वाईन" जहां कहीं भी वह आया है, के पश्चात् शब्द 'एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ग) शर्तों में,-

- (एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द "विक्रय करने हेतु" के पश्चात् शब्द "हेरिटेज मंदिरा एवं" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (दो) शर्त क्रमांक (3), (5), (7), (9), (10) एवं (12) में, शब्द "वाईन" के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" जोड़े जाएं;
- (तीन) शर्त क्रमांक (4) में, अंत में, शब्द, चिन्ह, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "अनुज्ञाप्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2) से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं।

(9) प्ररूप आर. डब्ल्यू. एस. 2 में,-

- (क) शीर्षक एवं प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द "वाईन" जहां कहीं भी वह आया है, के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" जोड़े जाएं;

(ख) शर्तों में,-

- (एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द तथा चिन्ह "भारत में निर्मित अथवा आयातित वाईन" के स्थान पर, शब्द "भारत में निर्मित अथवा आयातित वाईन एवं हेरिटेज मंदिरा (मध्यप्रदेश में निर्मित)" स्थापित किए जाएं;

- (दो) शर्त क्रमांक (4), (5), (8), (9), (11) एवं (12) में शब्द "वाईन" के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

- (तीन) शर्त क्रमांक (6) में, अंत में, चिन्ह, शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "अनुज्ञाप्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2) से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(चार) शर्त क्रमांक (7) में,-

- (क) शब्द "वाईन" जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात् शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

- (ख) अंत में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "अनुज्ञाप्तिधारक, विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर, 180 मिलीलीटर/375 मिलीलीटर/500 मिलीलीटर/750 मिलीलीटर की क्षमता के साथ हेरिटेज मंदिरा स्टाक सील बंद बोतलों में कर सकेगा।" जोड़े जाएं।

(10) प्ररूप एफ.एल.ए.पी.सी. में,-

- (क) शीर्षक में, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (ख) प्रारंभिक पैरा में, नियमों के लघु शीर्षक को छोड़कर, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (ग) शर्तों में,-
  - (एक) शर्त क्रमांक (3) में, शब्द "तथा वाईन" के स्थान पर, शब्द "वाईन एवं हेरिटेज मंदिरा" स्थापित किए जाएं;
  - (दो) शर्त क्रमांक (4) में, अंत में, शब्द, चिन्ह, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "अनुज्ञाप्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माणी इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2)/आर.डब्ल्यू.एस.1/ आर.डब्ल्यू.एस.2 से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं;
  - (तीन) शर्त क्रमांक (5), (6) एवं (8) में शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं।

(11) प्ररूप एफ.एल. 2-कक्ष में,-

- (क) प्रारंभिक पैरा में, नियमों के लघु शीर्षक को छोड़कर, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;
- (ख) शर्तों में,-
  - (एक) शर्त क्रमांक (1) में, शब्द तथा चिन्ह "जैसा कि कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" के पश्चात्, शब्द चिन्ह, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "अनुज्ञाप्तिधारक, हेरिटेज मंदिरा का प्रदाय, हेरिटेज मंदिरा विनिर्माण इकाई/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/देशी मंदिरा भाण्डागार/हेरिटेज मंदिरा फुटकर दुकान (एच.एल.-2)/आर.डब्ल्यू.एस.1/आर.डब्ल्यू.एस.2 से प्राप्त कर सकेगा।" जोड़े जाएं;
  - (दो) शर्त क्रमांक (2) में, अंत में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "अनुज्ञाप्तिधारक, विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर, 180 मिलीलीटर/375 मिलीलीटर/500 मिलीलीटर/750 मिलीलीटर की क्षमता के साथ हेरिटेज मंदिरा का स्टाक सील बंद बोतलों में कर सकेगा।" जोड़े जाएं;

(तीन) शर्त क्रमांक (3), (4), (5) एवं (7) में, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(चार) शर्त क्रमांक (9) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"(9-क) बार का अनुज्ञाप्तिधारक, मैन्यू में, हेरिटेज मंदिरा का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।"

(12) प्ररूप एफ.एल.एच.बी. में, शर्तों में,-

(क) शीर्षक में, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ख) प्रारंभिक पैरा में, नियमों के लघु शीर्षक को छोड़कर, शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ग) शर्तों में,-

(एक) शर्त क्रमांक (2) तथा (3) में शब्द "विदेशी मंदिरा" के पश्चात्, शब्द "एवं हेरिटेज मंदिरा" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(दो) शर्त क्रमांक (4) में, अंत में, शब्द तथा अंक "होमबार अनुज्ञाप्तिधारक हेतु हेरिटेज मंदिरा के आधिपत्य की अधिकतम सीमा 24 क्वार्ट बोतल अथवा उसके समतुल्य होगी।" जोड़े जाएं;

(तीन) शर्त क्रमांक (7) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

"7-क. होमबार अनुज्ञाप्तिधारक, स्वयं, समय-समय पर, अपने अनुज्ञाप्त परिसर का निरीक्षण वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) के सक्षम अधिकारी से करा सकेगा।

7-ख. होमबार अनुज्ञाप्तिधारक उसके द्वारा क्रय की गई मंदिरा की इनवॉइस/इनवॉइसेस अभिलेख (रिकार्ड) में रखेगा तथा उन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

7-ग. कोई शिकायत प्राप्त होने पर, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) के सक्षम अधिकारी, होमबार अनुज्ञाप्तिधारक के अनुज्ञाप्त परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे तथा त्रुटि/त्रुटियां पाए जाने पर अनुज्ञाप्तिधारक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के उल्लंघन के लिए विधिक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे।"

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र. 3-3-4-0014-2023-Sec-02-पांच (CT)(13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0014-2023-Sec-02-पांच(CT)(13), दिनांक 14 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 14<sup>th</sup> February 2025

No.3-3-4-0014-2023-Sec-02-V (CT)(13).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:-

### **AMENDMENTS**

In the said rules,—

(1) in rule 8, in sub-rule (1),-

(a) for clause (aa-8), the following clause shall be substituted, namely:-

“(aa-8) R.W.S.1 (Licence for sale of heritage liquor and wine made in the Madhya Pradesh from retail wine shop):-

Licence in form R.W.S.1 shall be granted for sale of heritage liquor and wine made in the Madhya Pradesh, in sealed bottles from retail wine shop which is manufactured in Madhya Pradesh from grapes and other fruits produced in Madhya Pradesh on advance payment of annual licence fee of Rs. 10,000/-.”.

(b) in clause (aa-9), after the word "wine", wherever it occurs, the words "and heritage liquor" shall be inserted;

- (c) in clause (aa-10), (bb), (bbbb), (c), (cc), (d) and (e), after the words "foreign liquor", wherever they occur, the words "and heritage liquor" shall be inserted.
- (2) For rule 8-A, the following rule shall be substituted, namely:-

**"8-A. F.L.H.B. (Home Bar Licence).-** Home bar licence shall be granted in Form F.L.H.B. for consumption and possession of foreign liquor and heritage liquor in the personal residence of such person whose reported gross individual income is minimum of Rs. 35 lakhs, as per his/her income tax return for the previous financial year. This licence shall be granted by the Collector on payment of an annual licence fee of Rs. 75,000/-".

- (3) In FORM F.L. 2,-
- (a) in the opening paragraph, after the words "foreign liquor", except for the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (b) in the conditions,-
- (i) in condition number (1), after the words and symbol "as may be specified by the Collector.", the words, symbols, brackets, letters and figures "The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/ country liquor warehouse/heritage liquor retail shop (H.L.-2)/R.W.S.1/R.W.S.2." shall be added;

- (ii) in condition number (2), (3) and (4), after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (iii) in condition number (6-A), at the end, the words, figures and symbols "The licensee may stock heritage liquor in sealed bottles with a capacity of 180 millilitres/375 millilitres/500 millilitres/750 millilitres, except for the ones that have been opened for sale." shall be added;
  - (iv) after condition number (8-B), in the proviso, after clause (ii), the following condition shall be added, namely:-
 

"(8-C)The Bar licensee shall compulsorily mention heritage liquor in the menu."
- (4) In FORM F.L. 3,-
- (a) in the opening paragraph, after the words "foreign liquor", except for the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (b) in the conditions,-
    - (i) in condition number (1), after the words and symbol "as may be specified by the Collector.", the words, symbols, brackets, letters and figures "The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/country liquor warehouse/heritage liquor retail shop (H.L.-2)/R.W.S.1/R.W.S.2." shall be added;

- (ii) in condition number (2), after the words "foreign liquor" wherever they occur, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (iii) in condition number (3), after the words "only loose foreign liquor", the words "and loose heritage liquor" shall be inserted;
- (iv) after condition number (4)(b), the following condition shall be added, namely:-
  - "(c) The licensee shall compulsorily stock minimum 2 cases of heritage liquor for sale. The calculation of the quantity of the specified minimum stock kept shall be done on quarterly basis. On all such days, when the stock of heritage liquor is found to be less than the specified minimum quantity, the collector may impose a penalty at the rate of upto Rs. 500/- per proof litre, per day on such quantity falling short of the minimum specified quantity.";
- (v) in condition number (5) and (8), after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (vi) in condition number (6), at the end, the words, figures and symbols "The licensee may stock heritage liquor in sealed bottles with a capacity of 180 millilitres/375 millilitres/500 millilitres/750

millilitres, except for the ones that have been opened for sale." shall be added;

(vii) after condition number (8), the following condition shall be added, namely:-

"(8-A)The Bar licensee shall compulsorily mention heritage liquor in the menu.". .

(5) In FORM F.L. 3-A,-

(a) in the opening paragraph, after the words "foreign liquor", except for the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;

(b) in the conditions,-

(i) in condition number (1), after the words and symbol "as may be specified by the Collector.", the words, symbols, brackets, letters and figures "The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/country liquor warehouse/heritage liquor retail shop (H.L.-2)/R.W.S.1/R.W.S.2." shall be added;

(ii) in condition number (2), after the words "foreign liquor", wherever they occur, the words "and heritage liquor" shall be inserted;

(iii) in condition number (3), after the words "only loose foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;

- (iv) in condition number (4) and (8), after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (v) in condition number (6), at the end, the words, figures and symbols "The licensee may stock heritage liquor in sealed bottles with a capacity of 180 millilitres/375 millilitres/500 millilitres/750 millilitres, except for the ones that have been opened for sale." shall be added;
  - (vi) after condition number (8), the following condition shall be added, namely:-  
"(8-A)The Bar licensee shall compulsorily mention heritage liquor in the menu.".
- (6) In FORM F.L. 4,-
- (a) in the heading, after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (b) in the opening paragraph, after the words "foreign Liquor", except for the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (c) in the conditions,-
    - (i) in condition number (1), after the words and symbol "as may be specified by the Collector.", the words, symbols, brackets, letters and figures "The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/country liquor warehouse/heritage

- liquor retail shop (H.L.-2)/R.W.S.1/R.W.S.2" shall be added;
- (ii) in condition number (2), (3), (6) and (8), after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (iii) in condition number (5), at the end, the words, figures and symbols "The licensee may stock heritage liquor in sealed bottles with a capacity of 180 millilitres/375 millilitres/500 millilitres/750 millilitres, except for the ones that have been opened for sale." shall be added;
- (iv) after condition number (9), the following condition shall be added, namely:-  
"(9-A)The Bar licensee shall mandatorily mention heritage liquor in the menu."
- (7) In FORM F.L. 5,-
- (a) in the opening paragraph, after the words "foreign liquor", except for the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (b) in the conditions,-
- (i) in condition number (1), after the words and symbol "as may be specified by the Collector.", the words, symbols, brackets, letters and figures "The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/country liquor warehouse/heritage

- liquor retail shop (H.L.-2)/R.W.S.1/R.W.S.2." shall be added;
- (ii) in condition number (2), (3) and (7), after the words "foreign liquor", wherever they occur, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (iii) in condition number (5), at the end, the words, figures and symbols "The licensee may stock heritage liquor in sealed bottles with a capacity of 180 millilitres/375 millilitres/500 millilitres/750 millilitres, except for the ones that have been opened for sale." shall be added.
- (8) In FORM R.W.S.1,-
- (a) in the English version, in the heading, for the words, brackets, letters and symbol "Madhya Pradesh (MP)-made wine", the words "heritage liquor and wine made in the Madhya Pradesh" shall be substituted;
  - (b) in the opening paragraph, after the word "wine", wherever it occurs, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (c) in the conditions,-
    - (i) in condition number 1, after the words "to sell", the words "heritage liquor and" shall be inserted;
    - (ii) in condition number 3, 5, 7, 9, 10 and 12, after the word "wine", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
    - (iii) in condition number 4, at the end, the words, symbols, brackets, letters and figures "The

licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/country liquor warehouse/ heritage liquor retail shop (H.L.-2)." shall be added.

(9) In FORM R.W.S. 2,-

- (a) in the heading and in the opening paragraph, after the word "wine" wherever it occurs, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (b) in the conditions,-
  - (i) in condition number 1, for the words and symbol "wine, whether Indian or imported,", the words "wine, whether Indian or imported and heritage liquor (made in the Madhya Pradesh)" shall be substituted;
  - (ii) in condition number 4, 5, 8, 9, 11 and 12, after the word "wine", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (iii) in condition number 6, at the end, the symbols, words, brackets, letters and figure ".The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/ country liquor warehouse/heritage liquor retail shop (H.L.-2)." shall be added;
  - (iv) in condition number 7,-
    - (A) after the word "wine", wherever it occurs, the words "and heritage liquor" shall be inserted;

(B) at the end, the words, figures and symbols "The licensee may stock heritage liquor in sealed bottles with a capacity of 180 millilitres/375 millilitres/ 500 millilitres/750 millilitres." shall be added.

(10) In FORM F.L.A.P.C.,-

- (a) In the heading, after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (b) in the opening paragraph, after the words "foreign liquor", except for the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (c) in the conditions,-
  - (i) in condition number 3, for the words "and wine", the symbol and words ",wine and heritage liquor" shall be substituted;
  - (ii) in condition number 4, at the end, the words, symbols, brackets, letters and figures "The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/country liquor warehouse/ heritage liquor retail shop (H.L.-2)/R.W.S.1/ R.W.S.2." shall be added;
  - (iii) in condition number (5), (6) and (8), after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted.

(11) In FORM F.L.2-AA,-

- (a) in the opening paragraph, after the words "foreign liquor", except for the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (b) in the conditions,-
  - (i) in condition number (1), after the words and symbol "as may be specified by the Collector.", the words, symbols, brackets, letters and figures "The licensee may procure heritage liquor from heritage liquor manufacturing unit/foreign liquor warehouse/country liquor warehouse/heritage liquor retail shop (H.L.-2)/R.W.S.1/R.W.S.2." shall be added;
  - (ii) in condition number (2), at the end, the words, figures and symbols "The licensee may stock heritage liquor in sealed bottles with a capacity of 180 millilitres/375 millilitres/500 millilitres /750 millilitres, except for the ones that have been opened for sale." shall be added;
  - (iii) in condition number (3), (4), (5) and (7), after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (iv) after condition number (9), the following condition shall be added, namely:-  
"(9-A)The Bar licensee shall compulsorily mention heritage liquor in the menu.".

(12) In FORM F.L.H.B.,-

- (a) in the heading, after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (b) in the opening paragraph, after the words "foreign liquor", except the short title of the rules, the words "and heritage liquor" shall be inserted;
- (c) in the conditions,-
  - (i) in condition number 2 and 3, after the words "foreign liquor", the words "and heritage liquor" shall be inserted;
  - (ii) in condition number 4, at the end, the words and figures "The maximum limit of possession of heritage liquor for a home bar licensee shall be 24 quart bottle or its equivalent." shall be added;
  - (iii) after condition number 7, the following conditions shall be added, namely:-
    - "7-A. The home bar licensee may himself get his/her licensed premises inspected, from time to time by the competent officer of the Commercial Taxes (Excise) Department.
    - 7-B. The home bar licensee shall keep the invoice/ invoices for the liquor purchased by him/her in the record and shall compulsorily produce them for the inspecting officer.
    - 7-C. On receipt of any complaint, the competent officers of the Commercial Taxes (Excise)

Department, may inspect the licensed premises of the home bar licensee and if in case any error/errors are found, they shall be authorised to take legal action for the violation of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the rules made thereunder and the orders/directions of the Excise Commissioner."

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.